

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 525]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2019 — भाद्रपद 1, शक 1941

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-06/2018/सात-4. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है, जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	नवागढ़	शिवरीनारायण	रा. नि. मण्डल शिवरीनारायण के पटवारी हल्का नं. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 एवं 33 के कुल 14 ग्राम, रा. नि. मण्डल मिसदा के पटवारी हल्का नं. 20, 25, 26, 27, 28, 31 एवं 32 के कुल 18 ग्राम, रा. नि. मण्डल अमोरा के पटवारी हल्का नं. 16 के कुल 2 ग्राम,	उत्तर-तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा. दक्षिण-तहसील बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार. पूर्व-तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा. पश्चिम-तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

अतः, 16 पटवारी हल्के के
कुल 34 ग्राम नवीन तहसील
“शिवरीनारायण” में शामिल
होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता यादव, उप-सचिव.

Atal nagar, the 23rd August 2019

NOTIFICATION

No. F 11-06/2018/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), Notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tehsil specified in column (3), to create a new Tehsil specified in column (4) and to define limits thereof as specified in Schedule below, the same having been previously published as required by Section 13 of the said Act, namely :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tehsil	Create New Tehsil	Nature of change	Boundaries of new Tehsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Janjgir-Champa	Nawagarh	Shivrinarayan	Total 14 villages of Patwari Halka No. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 and 33 of Shivrinarayan R. I. Circle, Total 18 villages of Patwari Halka No. 20, 25, 26, 27, 28, 31 and 32 of Misada R. I. Circle, Total 2 villages of Patwari Halka No. 16 of Amora R. I. Circle, Thus, total 34 villages of 16 Patwari Halkas shall be included in new Tehsil “Shivrinarayan”.	North-Tehsil Nawagarh, District Janjgir-Champa. South-Tehsil Bilaigarh, District Balodabazar-Bhatapara. East-Tehsil Champa, District Janjgir-Champa. West-Tehsil Pamgarh, District Janjgir-Champa.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RITA YADAV, Deputy Secretary.